

यह साल एफआईआई की बिकवाली और डीआईआई की लिवाली के नाम

साई अरविंद मुंबई, 24 दिसंबर

दलाल पथ कैलेंडर वर्ष 2025 का समापन भारतीय इक्विटी में अब तक की सबसे खराब वैश्विक फंड बिकवाली के साथ करने जा रहा है। हालांकि घरेलू संस्थानों के लगातार निवेश ने उनकी बिकवाली का दबाव कम किया और बाजार को बड़ी गिरावट से बचाया।

लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि कैलेंडर वर्ष 2026 में कम घरेलू ब्याज दरों, स्थिर महंगाई और बेहतर कमाई की उम्मीदों के कारण भारतीय शेयर बाजारों में ज्यादा विदेशी पूंजी वापस आ सकती है, बशर्ते कि रुपया-डॉलर का समीकरण अनुकूल बना रहे। इस साल अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने 1.51 लाख करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं। सेबी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एफआईपी के ज़रिये मिले मजबूत निवेश के बल पर अब तक सबसे ज्यादा 4.84 लाख करोड़



रुपये का निवेश किया है। आईएनवीएसेट पीएमएस के पार्टनर और फंड मैनेजर अनिरुद्ध गर्ग ने कहा कि इस साल की एफआईआई बिकवाली काफी हद तक वैश्विक पूंजी के दुबारा आवंटन का नतीजा थी, न कि भारत की संरचनात्मक कहानी के पुनः आकलन का। उन्होंने कहा, ‘ऊंची वैश्विक ब्याज दरों, विशेष रूप से अमेरिका में, से जोखिम-मुक्त रिटर्न में सुधार आया और उभरते बाजार इक्विटी

के सापेक्ष आकर्षण कम हुआ।’ विश्लेषकों ने बताया कि मुद्रा में कमजोरी से 2025 में एफआईआई निवेश पर और दबाव पड़ा। भारतीय रुपया इस साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4.73 प्रतिशत कमजोर होकर एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है।

बाजार में घरेलू संस्थानों ने संभाला मोर्चा
वैश्विक अनिश्चितता और जोखिम वाली संपत्तियों में बिकवाली के

बाजार में उतार-चढ़ाव की डगर

■ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस साल अब तक 1.51 लाख करोड़ रुपये के शेयर बेचे

■ यह किसी भी कैलेंडर वर्ष में एफपीआई का अब तक का सबसे अधिक बिकवाली का आंकड़ा है

■ विश्लेषकों का कहना है कि मुद्रा में कमजोरी से भी 2025 में एफआईआई निवेश पर दबाव पड़ा

बावजूद निफ्टी 50 पिछले कुछ महीनों में मजबूत घरेलू निवेश के समर्थन से एक दायरे में बना रहा। भविष्य के उतार-चढ़ाव की संभावना बताने वाला इंडिया वीआईएक्स मंगलवार को 9.49 के सर्वाधिक निचले स्तर पर आ गया। वेल्थ1 के सीईओ नरेन अग्रवाल ने कहा कि मजबूत डीआईआई निवेश घरेलू बचत के वित्तीयकरण में वृद्धि का संकेत है, जिसने पूंजी का एक स्थिर पूल बनाया है और यह काफी हद तक बाजार के

अल्पकालिक उतार-चढ़ावों से प्रभावित नहीं होता। उन्होंने कहा, ‘यही कारण है कि गिरावट पर दहशत में तेजी से बिकवाली नहीं हुई बल्कि घरेलू खरीदारी ने इसे संभाल लिया।’ खुदरा निवेशकों के बारे में विश्लेषकों का कहना है कि भारत की दीर्घावधि विकास कहानी में उनका भरोसा बना हुआ है, लेकिन जोखिम के प्रति अधिक सतर्क और सचेत दृष्टिकोण से यह कम हो गया है। अग्रवाल ने कहा कि खुदरा निवेशक तेजी का पीछा करने के बजाय व्यवस्थित साधनों के माध्यम से पूंजी निवेश कर रहे हैं, जिससे दहशत में बिकवाली कम हो रही है।

विदेशी निवेश पर नजरिया

बेंचमार्क दशकों में वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सबसे खराब प्रदर्शन दर्ज करने के कगार पर हैं। हालांकि फिर भी निफ्टी 50 सूचकांक इस साल अब तक 10.7 प्रतिशत बढ़ा है जबकि 30 शेयरों वाला संसेक्स 9.5 प्रतिशत बढ़ा है। विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार 2026 में एफआईआई के लिए अपेक्षाकृत आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरेगा।

चांदी सवा दो लाख और सोना 1.40 लाख के करीब

रामवीर सिंह गुर्जर नई दिल्ली, 24 दिसंबर



वैश्विक बाजार में सोना 4,500 डॉलर के पार, जबकि चांदी 73 डॉलर के करीब पहुंची

मुताबिक बिना जीएसटी आज चांदी के हाजिर भाव 2,18,983 रुपये किलो और सोने के 1,36,627 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वोच्च शिखर पर बंद हुए। आईबीजेए के भाव को बेंचमार्क मानकर ही बैंक सोने पर कर्ज देती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमिक्स पर चांदी के वायदा भाव आज 72.75 डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए। सोने के भाव ने भी कॉमिक्स पर 4,555.10 डॉलर औस पर उच्चतम स्तर छू लिया। दिल्ली के सराफा कारोबारी वी के गोयल ने कहा कि दिल्ली में

चांदी के हाजिर भाव जीएसटी सहित आज 2.27 लाख रुपये और सोने के 1.40 लाख रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। जानकारों के मुताबिक सोने चांदी की कीमतों में तेजी जा रह सकती है। घरेलू बाजार में सोना 1.51 लाख और चांदी 2.50 लाख रुपये तक जा सकती है। वहीं वैश्विक बाजार में सोने के भाव 4,600 डॉलर और चांदी के 75 डॉलर पार जाने की संभावना है। हालांकि जिंस विश्लेषकों का कहना है लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके सोने और चांदी के भाव में कभी भी मुनाफावसूली के कारण गिर भी सकते हैं। लेकिन लंबी अवधि का रुख सकारात्मक ही है। घरेलू बाजार में इस सोने के वायदा भाव 80 फीसदी और चांदी के 150 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुके हैं।

गुजरात किडनी को 5.2 गुना बोलियां मिलीं

बीएस संवाददाता/एजेंसी मुंबई/नई दिल्ली, 24 दिसंबर

हेल्थकेयर सेगमेंट की कंपनी गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशियलिटी के आईपीओ को बुधवार को शेयर बिक्री के आखिरी दिन तक 5.21 गुना बोलियां मिलीं। रिटेल और गैर-संस्थागत श्रेणी को क्रमशः 19.04 और 5.73 गुना सब्सक्राइब किया गया। पात्र संस्थागत निवेशक श्रेणी को 1.06 गुना सब्सक्राइब किया गया।

एनएसई के आंकड़े के अनुसार, आईपीओ के तहत पेश किए गए 1,32,26,880 शेयरों के मुकाबले 6,89,69,088 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशियलिटी ने एंकर निवेशकों से करीब 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। 251 करोड़ रुपये के इस आईपीओ का कीमत दायरा 108-114 रुपये प्रति शेयर है।

यह आईपीओ पूरी तरह से 2.2 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया निर्गम है, जिसका भाव प्राइस बैंड के ऊपरी सिरे पर 250.8 करोड़ रुपये है। नए निर्गम से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल अहमदाबाद में पारेक्स हॉस्पिटल के प्रस्तावित अधिग्रहण और पहले से अधिग्रहित ‘अश्विनी मेडिकल सेंटर’ के लिए खरीद के बदले भुगतान के तौर पर किया जाएगा। कंपनी 340 बेड की कुल परिचालन क्षमता वाले मध्यम आकार के मल्टीस्पेशियलिटी अस्पतालों की श्रृंखला चलाती है। 2025 आईपीओ के लिहाज से एक ब्लॉकबस्टर साल रहा है, जिसमें 103 कंपनियों ने लिस्टिंग की, जो पिछले 25 वर्षों में सबसे ज्यादा है। यह पहली बार भी है जब भारत ने लगातार दो साल तक प्राइमरी बाजार में रिकॉर्ड कोष उगाही दर्ज की है।

संसेक्स 116 अंक फिसला

भाषा मुंबई, 24 दिसंबर

मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच क्रिसमस से एक दिन पहले बुधवार को घरेलू शेयर बाजार में कारोबार का रुख सुस्त रहा। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में संसेक्स 116 अंक और निफ्टी 35 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए।

विश्लेषकों के मुताबिक, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी और विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने से भी निवेशक धारणा प्रभावित हुई। संसेक्स 116.14 अंक यानी 0.14 प्रतिशत गिरकर 85,408.70 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 85,738.18 अंक के उच्च स्तर तक गया और 85,342.19 अंक के निचले स्तर तक आया। यह संसेक्स में गिरावट का लगातार दूसरा दिन है। एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी 35.05 अंक यानी 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26,142.10

अंक पर बंद हुआ। मंगलवार को निफ्टी मामूली बढ़त के साथ लगभग स्थिर रहा था। संसेक्स की कंपनियों में से इंटरनेट एक्विजिशन, सन फार्मा, एशियन पेट्रोल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा स्टील के शेयरों में गिरावट रही। इसके विपरीत ट्रेट, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजूकी और पावर ग्रिड के शेयरों में तेजी आई। रेलिगेयर ब्रॉकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा, ‘स्थिर शुरुआत के बाद निफ्टी किसी ताजा संकेत के अभाव में अधिकांश कारोबारी सत्र में सीमित दायरे में रहा। वैश्विक संकेतों ने शुरुआती कारोबार में निवेशक धारणा को प्रभावित करना जारी रखा।’ मझोली कंपनियों का बीएसई मिडकैप सूचकांक 0.37 प्रतिशत गिर गया जबकि छोटी कंपनियों के स्मालकैप में 0.14 प्रतिशत की गिरावट रही। क्रिसमस के अवसर पर गुरुवार को घरेलू शेयर बाजारों में कारोबार बंद रहेगा।

मुनाफे की उम्मीदों से गोल्ड लोन कंपनियों की चमक बढ़ी

दीपक कोरगांवकर मुंबई, 24 दिसंबर

गोल्ड फाइनेंस कंपनियों- मुथूथ फाइनेंस और मणप्युस फाइनेंस- के शेयर मजबूत कमाई की उम्मीद से बुधवार को दिन के कारोबार में बीएसई पर अपने सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। इसकी तुलना में, बीएसई का संसेक्स 0.14 प्रतिशत गिरकर 85,408 पर बंद हुआ। मणप्युस फाइनेंस 6.7 प्रतिशत बढ़कर 314.55 रुपये पर पहुंच गया। यह शेयर 17 सितंबर, 2025 को छुए गए 298 रुपये के अपने पिछले ऊंचे स्तर को पार कर गया। मुथूथ फाइनेंस का शेयर दिन के कारोबार में 2 प्रतिशत बढ़कर 3,887.65 पर पहुंच गया और उसने 15 दिसंबर, 2025 को छुए 3,869.45 रुपये के अपने पिछले ऊंचे स्तर को पार कर लिया। हालांकि, कारोबार के आखिर में वह 0.35 प्रतिशत गिरकर 3,793 रुपये पर बंद हुआ। इस बीच, कैलेंडर वर्ष 2025 में अब तक मुथूथ फाइनेंस 87 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि मणप्युस फाइनेंस 69 प्रतिशत तेजी आई है। इसकी तुलना में, इसी अवधि के दौरान संसेक्स 9 प्रतिशत बढ़ा है।

आगामी वर्ष में अमेरिका में ब्याज दरों में और कटौती की बढ़ती संभावनाओं के बीच सोने की हाजिर कीमतें 4,439 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं। सोने की तेजी को पिछले सप्ताह अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने के बाद सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग से भी बढ़ावा मिला है, जिससे इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ गए हैं। सितंबर तिमाही में, गोल्ड लोन कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली रहीं। उन्होंने ऋण वृद्धि में 34-38 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की। मुथूथ फाइनेंस को सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और उद्योग में असुरक्षित ऋण पर सख्ती के कारण गोल्ड लोन



सोने की खनक बरकरार

■ कैलेंडर वर्ष 2025 में मुथूथ फाइनेंस अब तक 87 प्रतिशत बढ़ा है जबकि मणप्युस फाइनेंस में 69 प्रतिशत की तेजी आई है

■ सितंबर तिमाही में, गोल्ड लोन कंपनियों ने ऋण वृद्धि में 34-38 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की

■ सितंबर तिमाही में मुथूथ फाइनेंस ने सभी मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन किया

की मांग बढ़ने से फायदा हुआ है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार मुथूथ देश में गोल्ड लोन के लिए सबसे अच्छी फ्रैंचाइजी में से एक है। यह बात उद्योग में सबसे अच्छी स्वर्ण ऋण वृद्धि और बेहतरीन मुनाफा देने की इसकी क्षमता से जाहिर होती है। कंपनी ने इस तिमाही में सभी मामलों में अच्छा

प्रदर्शन किया। ब्याज आय में एक बार के बदलावों को समायोजित करने के बाद भी प्रदर्शन अच्छा रहा। स्वर्ण ऋण वृद्धि मजबूत रही। एनपीए यानी फंसे कर्ज में सुधार के कारण परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधरी। ज्यादा यील्ड और कोष की लागत (सीओएफ) में गिरावट के कारण इस तिमाही में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में भी बढ़ोतरी हुई। फिलहाल, मुथूथ फाइनेंस ब्रोकरेज फर्म के 3,800 रुपये के कीमत लक्ष्य से से ऊपर कारोबार कर रहा है।

मणप्युस के बारे में ऐक्सिस डायरेक्ट के विश्लेषकों ने दूसरी तिमाही के रिजल्ट अपडेट में कहा कि कंपनी गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में तेजी से वृद्धि पर फोकस जारी रखेगी, जिसमें वृद्धि मुख्य रूप से बड़े आकार और ज्यादा ग्राहक जुड़ने की उम्मीदों से होगी। कुछ समय के लिए नॉन-गोल्ड पोर्टफोलियो में मजबूती बनी रहेगी और फिर कंपनी अपने मुनाफे और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दोबारा विचार करने के बाद निर्धारित तरीके से वृद्धि की गति फिर तेज करेगी।

(Please scan this QR code to view the Draft prospectus)

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES IN THE UNITED STATES. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME")

AUREATE TRADE LIMITED
(formerly known as Aureate Tradde Private Limited)
CIN: U52609MH2018PLC312471

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name of **"MM9 Polytrade Private Limited"** under the provisions of the Companies Act, 2013 vide fresh Certificate of Incorporation issued by Central Registration Centre dated on August 03, 2019. Subsequently, the name of our Company was changed to **"Aureate Tradde Private Limited"** pursuant to the resolution passed by the shareholders at Extra-Ordinary General Meeting held on June 05, 2023 vide fresh Certificate of Incorporation issued by RoC Mumbai dated July 14, 2023. Further, pursuant to the resolution passed by the shareholders at Extra-Ordinary General Meeting held on February 10, 2025, the Company was converted into a Public Limited Company, and its name was changed from **"Aureate Tradde Private Limited"** to **"Aureate Tradde Limited"** vide a fresh Certificate of Incorporation consequent to the conversion was issued by the Central Processing Centre dated April 22, 2025. The Corporate Identification Number (CIN) of our Company is U52609MH2018PLC312471. For details of incorporation, change of registered office of our Company, please refer to the section title **"History and Corporate Structure"** on page no. 166 of this Draft Prospectus

Registered Office: 404, Floor 4, Plot No. 208, Regent Chambers, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai City, Maharashtra- 400021
Telephone: + 91-7208027910; **Website:** www.aureatetradde.in **E-mail:** compliance@aureatetradde.in
Contact Person: Ms. Sakshi Sareen, Company Secretary and Compliance Officer
OUR PROMOTER: MRS. KALASH KEVIN SHAH AND MR. PUNIT DEVENDRABHAI SHAH

DETAILS OF THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 38,98,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF AUREATE TRADE LIMITED ("ATL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS ("THE ISSUE"), COMPRISING OF FRESH ISSUE OF 38,98,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS (THE " FRESH ISSUE") AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS, OUT OF WHICH UPTO 1,96,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.e. NET ISSUE OF 37,02,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT A ISSUE PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.02 % AND 28.51 % RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE FACE VALUE OF OUR EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH. PLEASE REFER TO SECTION TITLED **"TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE NO. 234 OF THIS DRAFT PROSPECTUS.**

In terms of Rule 19(2)(b)(i) of the SCRR this Issue is being made for at least 25% of the post-Issue paid-up Equity Share capital of our Company. This Issue is being made through Fixed Price process in accordance and compliance with Regulation 229(2) of Chapter IX and other applicable provisions of SEBI ICDR Regulations, wherein a minimum 50% of the Net Issue is allocated for Individual Investors and the balance shall be offered to individual investors who applies for minimum application size and other investors including body corporates or institutions. Provided that the unsubscribed portion in either categories may be allocated to applicants in the other category. For further details please refer the section titled **"Issue Structure"** beginning on page no. 243 of this Draft Prospectus.

In terms of the SEBI Circular No. CIR/CFD/POLICYBELL/11/2015, dated November 10, 2015 and the all potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details about the bank account which will be blocked by the Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same. Further pursuant to SEBI circular bearing no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/76 dated June 28, 2019, for implementation of Phased II for UPI facility, which is effective from July 01, 2019, all potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts or UPI ID (in case of IIS), in which the corresponding Application Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as applicable. For details, please refer chapter titled **"Issue Procedure"** beginning on Page no. 246 of this Draft Prospectus. A copy of the Prospectus will be filed with the Registrar of Companies as required under Section 26 and Section 28 of the Companies Act, 2013.

THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES OF THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 247(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the Draft Prospectus dated December 23, 2025 which has been filed with the SME Platform of BSE Limited (**"BSE SME"** or **"BSE"**). In relation to above, the Draft Prospectus filed with BSE shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date mentioned below by hosting it on the respective websites of the Stock Exchange i.e., BSE at www.bseindia.com, website of the Company at www.aureatetradde.in and the website of the Lead Manager to the Issue at www.corporatemakers.in. Our Company hereby invites the members of the public to give comments on the Draft Prospectus filed with BSE with respect to disclosures made in the Draft Prospectus. The members of the public are requested to send a copy of their comments to BSE and /or to the Company Secretary and Compliance Officer i.e. compliance@aureatetradde.in of our Company and /or the Lead Manager of the issue at their respective addresses mentioned herein below in relation to the issue on or before 5:00 pm. on the 21st day i.e. 21 days from the date of filing of Issue Document with SME Platform of BSE Limited (**"BSE SME"**).

Investment in Equity and Equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this issue unless they can afford to take the risk of losing their investment

Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the statement of **"Risk Factors"** given on page no. 31 of the Draft Prospectus. Any decision to invest in the Equity Shares described in the Draft Prospectus may only be made after the Prospectus has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Prospectus as there may be material changes in the Prospectus from the Draft Prospectus.

The Equity Shares, when offered, through the Prospectus, and proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE SME or BSE). For details of the main objects of our Company as contained in its Memorandum of Association, see **"History and Corporate Structure"** on page 166 of the Draft Prospectus.

The liability of the members of our Company is limited. For details of the share capital, capital structure of our Company, the names of the signatories for the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them of our Company, please see **"Capital Structure"** beginning on page 73 of the Draft Prospectus.

CORPORATE MAKERS CAPITAL LIMITED 611, 6th Floor, Pragati Tower, Rajendra Place, New Delhi- 110008 Telephone: 011 41411600 Email: info@corporatemakers.in; Website: www.corporatemakers.in Investor Grievance Email: compliance@corporatemakers.in; Contact Person: Mr. Rohit Pareek SEBI Registration Number: INM000013095 CIN: U65100DL1994PLC063880	MUFG MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED (Formerly Link Intime India Private Limited) C-101, 247 Park, 1st Floor, LBS Marg, Vikroli (West), Mumbai- 400083, Maharashtra, India; Telephone: +91-8108114949 Email: aureatetradde.smeipo@in.mpmms.mufg.com; Website: in.mpmms.mufg.com/ Investor Grievance Email: aureatetradde.smeipo@in.mpmms.mufg.com; Contact Person: Mr. Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration Number: INR000004058 CIN: U67190MH1999PTC118368
All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the Draft Prospectus.	
For Aureate Tradde Limited On behalf of the Board of Directors Sd/- Sakshi Sareen Company Secretary and Compliance Officer Aureate Tradde Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an Initial Public Offer of its Equity Shares and has filed the Draft Prospectus with BSE on December 23, 2025. The Draft Prospectus shall be available on the website of the BSE at www.bseindia.com and is available on website of the Company i.e. www.aureatetradde.in, website of the Lead Manager to the issue i.e. Corporate Makers Capital Limited at www.corporatemakers.in. Potential investors should note that investment in Equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section entitled "Risk Factors" on page no. 31 of the Draft Prospectus and the details set out in the Prospectus, when filed. Potential investors should not rely on the Draft Prospectus for making any investment decision The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("the U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulations and the applicable laws of the jurisdiction where those offer and sales occur. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.	